

#### **Genus Paper & Boards Ltd**



(A Kailash Group Company)
CIN No: L21098UP2012PLC048300 PAN NO-AAECG5483A

August 22, 2020

**BSE Limited** 

(Corporate Relationship Department), 1<sup>st</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

E-mail: corp.compliance@bseindia.com

Scrip Code: 538961

National Stock Exchange of India Ltd.

(Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

E-mail: cc nse@nse.co.in

Symbol: GENUSPAPER

Dear Sirs,

Sub: Copy of Public Notice of Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2020 advertised in Newspapers

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect to the Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2020.

We request to kindly take the same on record.

Moradabac

Thanking You!

Yours truly,

For Genus Paper & Boards Limited

Anuj Ahluwalia Company Secretary

Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020, India Ph.: +91-11-47114800, Telefax: +91-11-47114814

Regd. Office & Works: Kanth Road, Aghwanpur, Moradabad-244001 (U.P.) Ph.: +91-591-2511171, 09837075702/3 Fax: +91-591-2511242

MUTUAL

Fund Manager(s) from

# **Electricity thefts** prompt UP to seek \$500-m ADB loan

**RAJESH KUMAR SINGH** New Delhi, August 21

**UTTAR PRADESH IS** seeking a \$500 million loan from Asian Development Bank and plans to use the proceeds to shield its electricity distribution network against losses and theft, according to people with knowledge of the matter.

The money will be used by the country's most populous state's power utility for projects, including setting up of separate distribution lines for farmers, who get subsidised electricity, as well as for laying theft-proof overhead cables, the people said, asking not to be identified as the deal hasn't been finalised. India is keen to get the funds by December, they said.

The coronavirus pandemic has weakened the country's already fragile power distribution firms, accentuating the push for structural reforms. Plugging pilferages and pushing for timely payments for electricity will help generators boost cash flows and invest in producing clean power required to revive growth in Asia's third-largest economy.

Asian Development Bank declined to comment, while Uttar Pradesh Power didn't immediately respond to an emailed request for comment. In April, ADB approved a hours.

### Tirupur exporters hail ESIC decision on wages

ment due to the pandemic.

TIRUPUR EXPORTERS ASSO-CIATION (TEA) on Friday thanked the Centre for the ESIC (Employees State Insurance Corporation) decision to pay 50% of the average wages of the employees for a maxi-

mum of 90 days of unemploy-


The decision would be helpful to the workers as it can also help in overcoming their difficulties during the period of unemployment, TEA president Raja M Shanmugham said in a press release.

In the first four months of this financial year, knitwear exports from Tirupur clocked ₹4,325 crore and TEA was hopeful of an improvement in the exports in the coming months, the release quoted Shanmugham of saying. —PTI

#### ROSSARI BIOTECH LIMITED

CIN: U24100MH2009PLC194818

Regd. Office: 201 A & B, 2" Floor, Akruti Corporate Park, L.B.S. Marg, Next to G. E. Gardens, Kanjurmarg (W) Mumbai - 400 078



Additional Information on Standalone Financial Results is as follows

		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	
Particulars		30th June 2020 Unaudited	31st March 2020 Audited	30th June 2019 Unaudited	
(a)	Total income from operations	1110.46	6037.25	1285.91	
(b)	Profit Before Tax	206.07	881.07	190.64	
(c)	Profit After Tax	152.75	655.22	141.77	

Directors at their meeting held on 21st August, 2020. An interim review of the above results has been carried out by the statutory The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the

SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.rossari.com. For ROSSARI BIOTECH LIMITED

Date : 21st AUGUST, 2020

Place : MUMBAI



			S		
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020	
	<u> </u>	(Reviewed)	(Reviewed)	(Audited)	
1	Total income from operations	523363	500648	2071248	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	12463	(32966)	(839779)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12463	(32966)	(834448)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12069	(34208)	(852740)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	NA	NA	NA	
6	Equity Share Capital	1643699	914165	1643699	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Auditied Balance Sheet of the previous year	1	22	(261338)	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - (not annualised)				
	1) Basic:	0.07	(0.37)	(8.04)	
	2) Diluted:	0.07	(0.37)	(7.99)	

SUNIL CHARI

DIN:00149083

Managing Director

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com), Bank website (www.iob.in)

The new Indian Accounting Standards (IndAS) are currently not applicable to banks in India (PARTHA PRATIM SENGUPTA) (AJAY KUMAR SRIVASTAVA)

**Executive Director** Managing Director & CEO Date: 20.08.2020 Place: Mumbai Place: Chennai

#### I HDFC MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

**HDFC Asset Management Company Limited** A Joint Venture with Standard Life Investments CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM to the Scheme Information Document(s) (SIDs) / Key Information Memorandum(s) (KIMs) of HDFC Arbitrage Fund, HDFC Equity Savings Fund, HDFC Multi-Asset Fund, HDFC TaxSaver, HDFC Focused 30 Fund, HDFC Growth Opportunities Fund, HDFC Index Fund - NIFTY 50 Plan, HDFC Index Fund - SENSEX Plan, HDFC NIFTY 50 ETF, **HDFC SENSEX ETF and HDFC Banking ETF** 

#### **Change in Fund Managers**

**NOTICE** is hereby given of the following change in the Fund Managers of the below mentioned Schemes of HDFC Mutual Fund with effect from August 24, 2020 ("Effective Date"):

**Existing Fund** 

No.		Manager(s)*	Effective Date*		
1	HDFC Arbitrage Fund		= -		
2	HDFC Equity Savings Fund (Arbitrage Assets)				
3	HDFC Index Fund - NIFTY 50 Plan				
4	HDFC Index Fund - SENSEX Plan	Mr. Krishan Kumar Daga	Mr. Krishan Kumar Daga		
5	HDFC NIFTY 50 ETF	Wir. Kristiati Kuttai Daya	Mr. Arun Agarwal		
6	HDFC SENSEX ETF				
7	HDFC Banking ETF				
8	HDFC Multi-Asset Fund (Arbitrage Assets)				
9	HDFC TaxSaver	Mr. Vinay Kulkarni	Mr. Amit Ganatra		
10	HDFC Equity Savings Fund (Equity Assets)	Mr. Gopal Agrawal	Mr. Conal Agranial		
11	HDFC Focused 30 Fund	Mr. Vinay Kulkarni	Mr. Gopal Agrawal		
12	HDFC Growth Opportunities Fund				
*Ded	icated Fund Manager for Overseas Inves	stments is Mr. Chirag Dagli			

Dedicated Fund Manager for Overseas Investments is Mr. Chirag Dagli.

All other terms and conditions of the above mentioned Schemes will remain unchanged.

from time to time. For HDFC Asset Management Company Limited

This notice-cum-addendum shall form an integral part of the SIDs / KIMs of the Schemes as amended

Place: Mumbai **Authorized Signatory** Date: August 21, 2020 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME

**#** Fism

Light Up The World

RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Sr. Scheme Name

#### **FIEM INDUSTRIES LIMITED**

Regd. Office: D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA) Tel.: +91-11-25927919 / 7820, Fax: +91-11-25927740, E-mail: investor@fiemindustries.com Website: www.fiemindustries.com, CIN: L36999DL1989PLC034928

### 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (Advance Notice)

- NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Monday, September 21, 2020 at 10:00 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the
- The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 31" AGM will be available on the website of the Company at www.fiemindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Further, those shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their emailaddress with the Company/RTA or DP, are requested to download the AGM Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM.
- Manner of registering / updating email addresses & mobile No. and Bank mandate for receiving Dividend: The shareholders, who have not registered their email address & mobile number with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:
  - (i) Registering / updating the details with DP: In case the Shares held in demat mode, it is strongly recommended to such shareholder to register / update the email address, mobile no. and bank account details in his / her demat account as per process advised by the DP.
  - Registering / updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholder need to visit to website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. at the link https://linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html and then select Fiem Industries Limited from dropdown list of Companies and fill in the details asked therein, and upload the required documents and submit. Though, shareholders holding shares in Demat mode can register / update his/her details to RTA, however, it is better for such shareholder to register / update these details with their DP only.

In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.

Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM: Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through

electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode

and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the

AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through (iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email.

Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the

Company as on the cut-off date i.e. September 14, 2020.

TDS on Dividend:

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend payable to the Members (if applicable for that member) as per Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 15G/15H/10F under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd., at the link https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

> For Fiem Industries Limited Arvind K. Chauhan Company Secretary

### 'From Sept 1, entry of imported toys in India only after quality testing'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 21

Ram Vilas Paswan on Friday said imported toys will be allowed to enter India only after complying with the mandatory quality norms from September 1 onwards. The government is in the

**CONSUMER AFFAIRS MINISTER** 

process of making quality standards mandatory for 371 tariff lines ranging from steel, chemicals, pharmaceuticals and electrical machinery to furniture to check shipments of sub-standard and non-essential goods, including from China. Bureau of Indian Standards

(BIS) is the government's nodal agency that frames quality standards in coordination with the concerned ministries.

"The mandatory quality control standard (QCS) for toys will be implemented from September 1 onwards. BIS staff will be deployed at major ports to take the sample and test the product for quality," Paswan told reporters.

So far, 268 standards have been mandatory in the country and many are in the pipeline, he added.

# sms

\$346 million loan to upgrade

rural distribution infrastructure

in Maharashtra. States such as

Gujarat, Punjab and Haryana

have separate distribution lines

for agricultural use, according to

nation's power distribution

companies jumped 69% to

₹496.2 billion (\$6.6 billion) in

the year ended March 2019,

Agricultural customers accounted for 22.4% of sales

volumes and barely 2.7% of

the revenues during the year,

lines, the distribution compa-

nies will be able to regulate

supplies to the subsidised

agricultural consumers, with-

out disrupting supplies to

other categories of users who

pay more for power. It will

also allow the companies to

manage demand by shifting

agricultural usage to off-peak

**—BLOOMBERG** 

With the help of separate

the latest available data.

the data show.

The combined loss at the

PowerLine magazine.

#### **SMS LIFESCIENCES INDIA LIMITED**

CIN: L74930TG2006PLC050223 Registered office: Plot.No. 19-III, Road No.71, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School,

Jubilee Hills, Hyderabad-500 096.

Phone.No: 040-66288888 Fax: 040-23551401"website: www.smslife.in email cs@smslife.in EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

		Standalone				Consolidated			
SI.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Year	Quarter	Quarter	Quarter	Year
No.		ended	ended	Ended	ended	ended	ended	Ended	ended
140.		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.20
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	5,477.76	4,625.28	9,271.50	25,692.41	5,474.90	4,598.54	9,184.13	26,078.1
2	Net Profit/ (Loss) (before tax, Exceptional items)	358.63	117.09	675.62	1,333.76	356.37	127.07	707.85	1,466.8
3	Net Profit/ (Loss) before tax (after Exceptional items)	358.63	117.09	675.62	1,333.76	356.37	127.07	707.85	1,466.8
4	Net Profit/ (Loss) after Tax (after Exceptional Items)	251.42	147.11	446.87	914.72	248.26	157.24	471.96	1,018.3
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/Loss after tax) and other comprehensive income)	246.59	119.95	445.30	882.38	243.70	128.04	471.32	1,013.7
6	Equity Share Capital (Face value: Re.10/- each)	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.3
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,023.24	-	-	-	11,270.9
8	Earnings per share (before extraordinary items) - (Not annualized)								
	a) Basic/Diluted (in Rs)	8.32	4.87	14.78	30.26	8.21	5.20	15.61	33.6

#### NOTES:

- The above Standalone and consolidated Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on August 21, 2020 and The results were subjected to Limited Review report by the Statutory Auditors of the Company.
- 2 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed Under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 3 The above is an extract of detailed format of quarterly / annual financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of quarterly / annual financial results are available on the website of the Stock Exchanges of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com) and companies website (www.smslife.in).

By order of the Board **TVVSN Murthy** Place: Hyderabad **Managing Director** Date : 21-08-2020

for SMS LIFESCIENCES INDIA LIMITED DIN: 00166485



#### INVEST UP (Earstwhile, Udyog Bandhu- U.P.) 12-C, Mall avenue, Lucknow-226 001 T: +91-522-2237582,2237583 & 2238902 E-mail: info@udyogbandhu.com



NOTICE INVITING TENDER

Long Term Investment Programme and Industrial/Infrastructure Project Development of State Governmet of Uttar Pradesh 'Invest UP' (Earstwhile, Udyog Bandhu-UP) invites e-bids for "Long Term Investmen Programme and Industrial/Infrastructure Project Development" of State Governmet or

The details of e-Bids can be viewed at the e-tender Portal https://etender.up.nic.in and Invest UP's website: www.udyogbandhu.com Closing date for submission of bids is fixed as 14.09.2020 by 1000 hrs.

Invest UP Reserves the Right to Cancel any or all the e-bids or annul the biddin process without assigning any reason there of Issuer, Finance Controller, Invest UP

MADHYA BHARAT AGRO PRODUCTS LTD. Reg. Office- 5-0-21, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.) India w.mbapl.com Email: secretarial@mbapl.com; CIN No.: L24121RJ1997PLC029126 Tel. No.: 01482-237104 Fax No.: 01482-239638 INFORMATION REGARDING THE 23rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

Shareholders may please note that the 23rd Annual General Meeting "AGM" of Madhya Bharat Agro Products Limited "the Company" will be held on Friday, the 25th September, 2020 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/1070, 17/2020 and 20/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No SEBI/110/0D/CMOI/OR/P/2010/79 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "circulars"), to transact the businesses that will be set forth in Notice of the

VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

In view of the prevailing situation, owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the Notice and Annual Report and pursuant to the above circulars, the Notice convening the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2019-20 shall be sent to the shareholders only by email on such addresses as are registered with the Depository Participant(s). Notice along with Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mbapl.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com

Shareholder, will be able to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system, if their email address is registered with the Depository Participant(s), the login credentials for remote e-voting will be sent on the registered email address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC / OAVM. Shareholder, whose email address / bank details for receiving dividend are not registered are requested

to do the same by following the procedure given below: Shareholders holding shares in Demat form can get their email ID/bank details registered/updated

only by contacting their respective Depository Participants. 2. Shareholders holding shares in physical form can register their email address and mobile number

with Company's Registrar and Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited (the RTA) by sending an e-mail request at the email ID investor@bigshareonline.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address and mobile number, self- attested copy of PAN Card and copy of a share certificate for registering their email address and receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions. Additional details like name and branch of Bank along with bank account type, bank account number, 9 digit MICR code, 11 digits IFSC code and scanned copy of cancelled cheque will be required for updating bank account details.

participant(s) or the Shareholders who have not received. Annual Report. AGM Notice and votino instructions are requested to visit www.mbapl.com to obtain such details. The instructions for voting and attending the AGM through VC / OAVM shall also be provided in the Notice of AGM and uploaded on the website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. 4. The Shareholders may note that the final dividend will be paid electronically to those shareholders

3. Shareholders who have not registered their email addresses with the RTA/ their Depository

who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares held in dematerialized mode) to receive dividend directly into their bank account on the payment date. The 23rd AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws at their

registered email addresses in due course. By Order of the Board of Directors For Madhya Bharat Agro Products Limited (Pallavi Sukhwall Place: Bhitwara Dated:21/08/2020 Company Secretary

financiale

## Genus energizing lives

#### **GENUS PAPER & BOARDS LIMITED**

CIN: L21098UP2012PLC048300 Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I , New Delhi-110020 Ph.:0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 | E-mail: cs@genuspaper.com | Website: www.genuspaper.com, EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Sr.	Sr PARTICULARS Quarter Ended							
No.	PARTICULARS	30-Jun-20	30-Jun-19	Year ended 31-Mar-20				
1000		Unaudited	31-Mar-20 Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total income from operations	3135.30	6632.64	7012.14	25393.27			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-561.27	121.99	338.37	857.95			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-561.27	121.99	338.37	857.95			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-548.62	95.45	211.11	891.11			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-548,62	-316.36	211.11	479.30			
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	14						
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) – (not annualised) (amount in Rs.)							
	Basic:	-0.21	0.04	0.08	0.35			
	Diluted:	-0.21	0.04	0.08	0.35			

#### Notes:

- 1 The above unaudited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 21, 2020. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.
- Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. 3 The Standalone figures for the quarter ended March 31, 2020 are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and year to date figures upto the third quarter for the respective

2 The Above financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting

years which were subject to limited review. Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year Classification.

For and on behalf of the Board of Directors

(Surya Prakash Sinha) Whole Time Director DIN: 06530766

New Delhi

Date: 22.08.2020 Place: Rai, Haryana

Place: Moradabad Date: August 21, 2020

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग)

खण्डवा, दिनाक 20/08/2020

क्रमाक/वि.एव या./इ—टेण्डोरेग/2019-20/48 र्इ-निविदा विज्ञप्ति

निम्नलिखित कार्यों हेतू निविदाएं ऑनलाईन आमंत्रित की जाती हैं, उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर आई डी	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	लागू SOR	कार्य पूण करने की अवधि				
1	2	3	4	5	6	7		ñ				
1	2020_UAD_ 102933_1	External Electrification work of Proposed Transport Nagar New Krishi Mandi Indore Road Khandwa	<b>92.46</b> लाख	69500/-	10,000/-	नवीन पद्धति पंजीयन श्रेणी 'स' व अधिक एवं अ श्रेणी विद्युत ठेकदार		<b>3</b> माह				
2	2020_UAD_ 102929_1	External Electrification work of Proposed Transport Nagar 33/11 KV Sub Station Construction Near New Krishi Mandi Khandwa	164.77 লাख	82400/-	12,500/-	नवीन पद्धति पंजीयन श्रेणी 'स' व अधिक एवं अ श्रेणी विद्युत ठेकदार	SOR	3 माह				
3	2020_UAD_ 102941_1	work of Housing Unit under PMAY at Sant Vinoba Bhave Ward AHP Site Chirakhan Khandwa	106.27 लाख	53200/-	12,500/-	नवीन पद्धति पंजीयन श्रेणी 'स' व अधिक एवं अ श्रेणी विद्युत ठेकदार	SOR	3 माह				
Π.	निविदा आनल्।	1. निविदा ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 21/09/2020 (शाम 5:30 बजे तक)										

2. निविदा खोलने की दिनांक : 23/09/2020 (सुबह 10:30 बजे)

निदिवा संबंधी समस्त जानका वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है; निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो यह केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। आयुक्त

नगर पालिक निगम, खण्डवा

4. श्री किम येओंग संग

बासास पुत्र रथा, औ यहाओर सिंह बासास

श्रीमती जसविन्दर सिंह चनान पानी श्री गुरनीत सिंह

5. मी फिल हवान शी

# Genus energizing lives

#### **GENUS PAPER & BOARDS LIMITED**

CIN: L21098UP2012PLC048300 Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I , New Delhi-110020 Ph.:0591-2511171 Fax: 0591-2511242 E-mail: cs@genuspaper.com Website: www.genuspaper.com,

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Sr	PARTICULARS	1 9	Year ended		
No.		30-Jun-20	31-Mar-20	30-Jun-19	31-Mar-20
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	3135.30	6632.64	7012.14	25393.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-561.27	121.99	338.37	857.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-561.27	121.99	338.37	857.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-548.62	95.45	211.11	891.11
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-548.62	-316.36	211.11	479.30
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		35	-	100
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) – (not annualised) (amount in Rs.)				
	Basic:	-0.21	0.04	0.08	0.35
	Diluted:	-0.21	0.04	0.08	0.35

#### Notes:

Place: Moradabad

Date: August 21, 2020

- 1 The above unaudited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 21, 2020. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.
- 2 The Above financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- 3 The Standalone figures for the quarter ended March 31, 2020 are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and year to date figures upto the third quarter for the respective years which were subject to limited review.
- Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year Classification.

For and on behalf of the Board of Directors (Surya Prakash Sinha)

Whole Time Director

DIN: 06530766

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डी-34, डीएसआईडीसी पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 (भारत) कोन : +91-11-25927820, 25927919, **ई**क्स : +91-11-25927740, ई-मेल : investor@flemindustries.com वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L369990L1989PLC034928

#### 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (पूर्व सूचना)

- एतदद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सुवीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई. 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में, फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी") / अन्य ऑंडियो विज्ञाल मीन्स ("ओएवीएम") के मध्यम से किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित
- एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सुधना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्थ, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् वित्तीय विवरण शामिल है (वार्षिक रिपोर्ट), केवल ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ('डीपी') के पास पंजीबद्ध है। सदस्यमण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अधवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि हेतु अनुदेश एजीएम की सुधना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 31वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com. बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे, उन शेयरधारकों, जो भौतिक रूप में शेयरों के घारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई—मेल पता कम्पनी /आरटीए अथवा ठीपी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोड करें तथा उसमें एजीएम से जुड़ने और भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करें।
- ई—मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लामांश प्राप्त करने हेतु बैंक आदेश पंजीकरण / अदातनीकरण की विधि
- जिन शेयरबारकों द्वारा अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर कम्पनी /आस्टीए / ढिपीजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा / अधवा लाभांश राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माज्यम से सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेत् बैंक खाता आदेश अद्यतित नहीं करवाया गया है, उनसे उपरोक्त विवरण अतिशीध निम्नतिखित विधि में पंजीकृत / अद्यतित करवाने का अनुरोध किया जाता है :
- डीपी के पास विवरण पंजीकरण / अधातनीकरण : यदि शेयर डीमेंट रूप में बारित हैं, ऐसे शेयरबारकों को दृढ़तापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई—मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमेंट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत /अदातित करवा लें।
- (ii) आरटीए के पास विवरण पंजीकरण / अद्यतनीकरण : यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूची से फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेंड सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और सबमिट करने होंगे। यदापि, डीमैट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकत /अदातित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरुवारक के लिए अपना विवरण केवल डीपी के पास पंजीकृत / अद्यतित करवाना बेहतर होगा।
- यदि कन्पनी किसी सदस्य को लागांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रीनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है, तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट / वैकसं चैक / डिमांड ड्राफ्ट, यथासंभव शीघ, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।
- रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि:
  - सदस्यों को एजीएम की सुधान में सुधीबद्ध व्यवसाय पर अपना बोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के मध्यम से ठालने का अवसर आभौतिक रूप, मौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा
  - रिमोटली वोटिंग ('रिमोट ई--वोटिंग') की विधि एजीएम की सुधना में दी जाएगी। ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट
  - ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं ढाला गया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट ढाल सकेंगे।
  - (iV) सदस्यों को ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने के लिए लॉगडन प्रत्ययपत्र ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण जिनको ई-मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई-मेल पता कम्पनी / आरटीए / हिपोंजिटरी पार्टिसिपैट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूधना में दिए
  - अनुदेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं। (V) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ तिथि अर्थात 14 सितम्बर, 2020 को उनके हिस्से के अनुवात में होंगे।
- लाभाश पर टीडीएस :

बोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान वोट ढालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरधारक के हाथों में लामांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को देय लागांश से आयकर अधिनियम. 1961 (आईटी ऐक्ट) में निर्धारित दशें पर स्रोत पर कर कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है (यदि उस सदस्य के लिए लागू हैं)। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी निवास स्थिति, पैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अथवा शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के पास पूर्ण तथा / अथवा अद्यतित करवा लें। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अधीन लागू प्रपन्न 15णी / 15एच / 10एक तथा अन्य लागू दस्तावेज जमा करने के लिए, सदस्यगण हमारे आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html देखें।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोटस और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./-

तिथि : 22 अगस्त, 2020 स्थान : राई, हरियाणा

अरविन्द के. चौहान कम्पनी सचिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra ONE FAMILY ONE BANK

क्षेत्रीय कार्यालय, 15 एनबीसीसी टॉवर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दरभाष : 011-26164817/26197769, टेलीफैक्स : 26171554

इं-मेल आईडी : recovery del@mahabank.co.in

उस तिथि को ई- 11.00 यत्रे पूर्वाहन से 01.00 यत्रे अपराहन तक

नीलामी का समय (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार

यह सम्पत्ति हमारे भौतिक करते में है

नीलाबी का समय (भागार) प्रलेक 5 मिनट का अमीपित विशवत

11.00 यने पूर्वाल्य से 01.00 यने अपगल्य तक

15.09.2020

नीलामी का राजप (अ.म.स.) प्रत्येक 5 फिन्ट का अवीधित विरत्या

इ-नोलामी की विश्वि उस विधि की ई-

सरफाएरी आधिनयम तथा प्रतिभृति हित (प्रयतंत्र) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में तथा निम्नतिक्षित कर्णदार(सें)/गरपीकर्ताओं के अनुसार सम्बद्ध कर्णदारों/गरपीकर्ताओं, उनके पैथानिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों, गैसी स्थिति हो, सहित जनसम्बन्ध तथा सची सम्बद्धों को एतदारा सुचित किया जाता है कि अधोडस्ताधरी द्वारा नीचे सुचीचढ़ सम्मतियों के क्रय हेतु ऑनलाइन सींवदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। आर्थित ग्रन्थ

प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वितीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण (सरफाएशी अधिनियम) के तहत आस्तियों के विक्रय हेतु सार्वजनिक सुचना

Ħ	कर्जदार तथा जमानती का नाम	Ħ.	सम्पति का विवसम	\$4,444	antique, Tree	
1	1 1. मैसर्स शुपम स्टार्च केम प्रातिः		<ul><li>(अ) औद्योगिक इकाई भूजन तथा डेड मंजिल के रूप में निर्मित, कोने के प्लॉट सं. 287-सी, एथएसआईटीसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर-59, बललभगड़, फरीदाबाद,</li></ul>	र. 19.90 सारव	本, 199,00 円程	
Г	2. भ्री अनन्द अग्रयस (जयनती)		हरियामा पर निर्मित, माप 564 वर्ग गन, मैससे शुपम स्टार्थ केम (प्रा.) लिमिटेड के नाम पर (आरक्षित मूल्य 173.00 लाख)	यह सम्पत्ति हमारे भौतिक करने में है		
П	3. श्रीमरी नीता आयात (जमनती)		( व ) संगन्त्र तथा मजीनरी का दृष्टियन्थक : 1. ट्रांसफॉर्मर, 2. जेनरेटर, 3. इलेक्ट्रिक पैनार, 4. 125 केवीएआर एपीएकरी पैनार, 5. बॉयारर, 6. इलेक्ट्रिक मोटर, 7.		15.09.2020	
	<ol> <li>भी आकाम अञ्चाल</li> <li>भी गंकेण कृपार गुन्ता,</li> </ol>	्यर कम्प्रेसर, इ. याटर कुलर, ९. आर.ओ. पर्नाट, १०. मैकेगोनी निर्मित मसीनें, ११. स्क्रैप एवं अन्य मित्रित मर्दे मसीनें, पर्नाट सं. 287-सी, एचएसआईटीसी इग्सस्ट्रियर एस्टेंट, सेक्टर-59, बल्लपगढ़ पर स्थित ( आरक्षित मूल्प 26.00 लक्षा)	2011 11 11 20 (2011 18.1)	11,00 वर्ने पूर्वाल से 01,00 वर्ने अपराल तक (भा.पा.स.) प्रत्येक 5 पिनट का असीपित विस्तार		
ı	<ol> <li>मैसर्स आकास इंटरनेशनल</li> <li>मैसर्स शिक्पति इण्डॉन्ट्रचल केम्बबल प्राप्ति.</li> </ol>		रं. 14,30 साख	F. 143.00 FIRE		
ı	<ol> <li>मस्त्र त्राव्यत इत्यान्द्रयत कानकत प्रतात.</li> <li>मस्त्र कार्तिक इत्यान्द्रयत</li> </ol>			पह सम	पति हमारे सांकेतिक कच्छे में है	
ı	a. don ense 4-arges		ई-मीलमी को लिय	24.09.2020		
		02	सम्पत्ति सं. २१३, सेक्टर ७ए, अर्थन एस्टेट, फरोदाबाद, हरियाण		11.00 वर्ने पूर्वास्त से 01.00 वर्ने अपरास्त तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार	
di di	शाया राजि (त. में)- त. 10,28,65,900/ - (रुपये दस	करो	इ अट्टाईस लाख पैंसट हजार नी सी मात्र) तथा 04.07.2014 से प्रभावी व्यान, 04.07.2014 के बाद वसूली, पदि कोई हो, को घटाकर।			
2			भूमि सम्मति का इक्टिरेवल बंधक साप 0.9243 एकड़, ग्राम-नीरंगपुर, तहसील एवं जिला गुरुगाम पर स्थित तथा पढ़ी हुई ( सर्वे सं. रेक्टेंगल सं. 38 ( किला सं. 10/2		र, 578.00 साख	
	बम्बुनिटी मेंटर, सबेज, नई दिल्ली-110017		तथा 11/11) एवं रेक्टेंगल सं. 39 (किला सं. 5/2/16 तथा 15/2) साथ ही भवन एवं संरथना-बंधकफर्ल का नाम-मैसर्स गिरनार इंप्रसट्टकवर प्र.लि. (साली प्लॉट)	यह स	म्पति हमारे भौतिक करने में है	
	<ol> <li>मैंगर्ग गिरमर इंग्राल्यनर प्रति, पंत्रेवन कार्यानय :</li> </ol>			of released not these	15 00 1010	

बेसमेंट, 6, बम्बुनिटी सेंटर, साबेत, नई दिलहे-110017 साथ 11.00 वर्त पूर्वास्त्र से 01.00 वर्त अपरास्त्र तक उस तिथि को ई-ही : यून्टिक शास, एल-व्लॉब, सारथ सिटी I, गुलग्रय-(भा.मा.म.) प्रत्येक ५ मिनट का अम्ब्रेमित विशता

बकाया राति ( र. में ) – र. ४,91,39,268/- ( रुपये आठ करोड़ इक्यानचे लाख उनतालीस हजार दो सी अइसठ मात्र) तथा 20.06.2016 से प्रभावी व्यात, 21.06.2016 के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर। मैसर्स आलोक इन्द्रश्येलहर प्रतिः 04 खाली पर्नीट, अपनी जराई खेवट सं. 718, खारीनी सं. 907, मुस्तील सं. 104, किला सं. 30(1-4), 31/3, मिन, दक्षिण (3-15) में निर्मित, नासिया नी मंदिर रोड, र. 80,90 लाख E. 809.00 HIM 2. भी अवसीक गर्न पुत्र जनेक्यर प्रसाद गुन्ता शानि नगर, निकट जैन डाई स्कूल सकुँलर रोड, रेवाड्री, डॉनेपाण में स्थित, माप 4 कनाल एवं 19 मरला, औ नितिन जैन पुत्र श्री विजेन्टर कुमार जैन के नाम पर। पाट प्राथमित समारं भीतिक प्राप्तते में है

3. भी आसीच गर्न पुत्र भी आलोक गर्न ई-मालामी की लिंच 15.09.2020 4. भ्री लांतर बिन्दल पुत्र जी.गी. बिन्दल 11.00 बने पर्वास्त से 01.00 बने अपरास्त उस विधि भी ई- औं नितिन जैन पुत्र विजेन्दर कुमार नीलामी का समय | तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित बकाण राति (क. में)– रु. १०,७१,५७,१११,००/– (रुपये दस करोड़ इक्यासी राज्य अट्टावन हजार एक सी न्यारह मात्र) तथा ०१.०६.२०१७ से प्रभाषी व्याज, ०१.०६.२०१७ के बाद वसुली, यदि कोई हो, को घटाकर। पैसार्ग सोट्टे इलेक्ट्रिक्स लिपटेड, 1/24, शासक. उ खिल में, 539,540,541 लचा 542, ग्राम किमालपुर, सहसील-किच्छा, जिला कथम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, प्लीट क्षेत्रफल : 1,656 हेप्टेयर अथवा 4.14 एकड, मैससी 8. 62.59 लाखा W. 625.83 TRIA असी गेड, नई दिल्सी-110002 लोट्टे इलेक्ट्रॉनिका प्राति, के नाम पर यह सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कडते में है 2. पैगार्ग कटिक इलेक्ट्रॉनिका (इण्डिया) ई-नोलमी की लिख 15.09.2020 3. श्री यंग मैन यून पुत्र तिक यून

क्काप्त राति (क. में)- र. 14,78,46,488/- (रुपये चौदह करोड़ अठहतर लाख डियालीस हजार चार सौ अट्टासी मात्र) तथा 11.01.2014 से प्रभावी व्याज, 11.01.2014 के बाद वसुली, यदि कोई हो, को घटाकर

06 आवामीय टीडीए एमआईनी फ्लैट में. 229, एसएकएस प्रकट-मी, श्रेश्च सराय, फेन-I, नई दिल्ली-110017 भी कालका देवी एक्केशनल ट्रस्ट 秋 10.50 南祖 म, 105,00 साम्ब 2. क्षे पूर्वत भागकत्वर्व यह सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कटते में है 3. भी दीपक भागवन्दानी ई-नीलमी की तिथि 4. श्रे कराये भागपन्ताने उस तिथि की ई-11.00 सने प्रचीहन से 01.00 सने अपराहन तक 5. श्रीमते लता भागवन्दानी नीलामी का समय (भा.मा.स.) प्रत्येक ५ प्रिनट का असीमित विस्ता 07 विसर में 34/3,34/4,35,36,37,40/1 तथा 40/2 एवं तस पर निर्माण, प्राय पिलीट, प्राय पंचायत-पिलीट, तलसील-सुरतगढ़, जिला-सुनसुन, राजस्थान, क्षेत्रफल 05.05 र. 206.70 लाख ₹. 2607.00 HTRI हेक्ट्रेक, स्वामित्व भी कालका देवी एज्केशनत इस्ट यह सम्पन्ति हमारे सकितिक करते में है ई-नीलामी की विधि उस विश्व को ई- 11.00 क्षत्रे पूर्वास्त्र से 01.00 क्षत्रे अपवास्त्र तक नीलापी का समय (भा.मा.म.) प्रत्येक 5 मिनट का असीचित विरक्ष

बकाया राजि (क. में)- क. 6,68,00,391.00/ - (रुपये छ: करीड़ अड्सट लाख तीन सी इक्यानये मात्र) तथा 01.04.2017 से प्रभागी व्याज, 25.05.2017 के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर। लॉट में. 1 से 7 हेडू शासक कार्यालय : मैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट ब्रॉम, शासक-011-23389879, ई-मेल : bom1456@mahabank.co.in; recovery\_del@mahabank.co.in अधिकृत प्राधिकारी : श्री आलोक दास, मीमाइल : 9617212145

 त. मैससे स्पेश्ट्रमङ्ख्योचेव सौत्युक्तन प्राप्तिः DS मधान सम्पत्ति और होल्ड आधारीय पर्वेट से. 48. अर्थेक र्जु. सेक्टर-55. सीमता, जिला गीतम बुद्ध नगर, र.प. का इविवर्टकल बंधक, श्री सैफ्ट गरीम अध्यास पृत्र स. 29.70 लाख \*. 297.05 HTRS 2. भी अनुज यादध श्री रीयद सरकार के नाम पर, माप 394,20 वर्ग मीटर यह सम्पत्ति हमारे चीतिक करते में है. 3. भी अनुसार गुण्ड र्थ-मानमी की लिंच 15.09.2020 4. भी धीरम शर्मा उस विधि की ई- 11,00 मने पूर्याल से 01,00 मने अपसल्य तक भी रीयद जारिय अस्तरात नीलामी का समय (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीवित विस्ता बकाण गति (क. में)– क. 4.20,59,353/- ( रुपये चार करोड़ भीस लाख उनसर हजार तीन सी तिरपन मात्र) तथा 23.04.2014 से प्रभावी बवाज, 22.04.2014 के बाद वसली, चींद कोई शे, को घटाकर।

7 | 1. मैशर्स बीनस द्रायमण्ड्स प्रोप: बीमनी सिम्मी घीगरा | 09 | व्यक्तिनक परिसर प्राइवेट सं, एलनीएफ 14 का इक्विटेक्स घेषक, पाँच मॉनल वाणिन्यिक भवन में लोशर भूतल का चाग, टेरेस/शत के अधिकार विना, एमपीएस सं. | स. 1.90 लाख

मंजिला आधारीय पावन में निर्मित प्रथम, क्रिसेय एवं तृतीय मंजिल है जो मुनी जारविन्दर और के नाम पर है।

**T. 18,92 FITS** 2520, 2521, aguin il 265 un um mili il 4, 2 un'ils mu mil XVI arémen miles direntin miles um af femili, 120005 un flans murfis di यह सम्पत्ति हमार भोत्तक करते में है श्रीमरी याँना धौगरा ध्रव धीगरा के नाम पर है। र्च-जेलको को लिय 15.09.2020 उस तिथि को ई- 11.00 को मुर्वाहर से 01.00 को अपराहर तक नीलामी का समय (भा.म.) प्रत्येक 5 मिनट का अमेरित विस्ता बकाचा गति (क. में) - क. 1,06,61,168.79 (रुपये एक करोड़ छ: लाख इकसट हजार एक सी अइसट तथा उन्याधी पैसे मात्र) तथा 22.12.2016 से प्रध्येगी व्याज, 22.12.2016 के बाद चसूली, वर्षि कोई हो, को घटाकर। जी,एस. ऑटीमोबाइएस प्रीमगइटर श्री मुरजीत सिंह 10 सम्पत्ति सुखदेश नगर, बोटाना मुखारकपुर, नई दिल्ली में त्रिका खासरा नं. 299 में से पनीट सं. 752 पर 46.82 वर्ग मीटा (56 वर्ग गत) माप के पनीट पर बी-जी-3 8.8.17 लाख 年, 81.70 円程

क्काया राशि (क. में)- क. 11907415/- (रुपये एक करोड़ टन्मीस लाख सल हजार चार सी तेरह यात्र) तथा 15.04.2017 से प्रभावी व्याज, 15.04.2017 के बाद पसुली, यदि कोई हो, को पटाकर।

 १ पैमार्ग क्षेत्रम नेवस इंटरनेक्चन 11 प्राइवेट में 104, मीन्ड प्याना भाग का प्रथम तन, पनीट खासरा में, 459 पर विश्वत, सम्मति में, 2057, 2058 तथा 2059 में में, स्तर्गिक की, मनी में, 38 एमें 39, नाई - में, 5,63 लाख 年, 56.25 刊程 2. क्रीयमी क्रीय भीता थाल, मुखारा रोज, करोल बाग, दिल्ली-110054 में, माथ क्षेत्रफल 178.50 धर्म फीट me morte sunt ables much if 9 3. श्री प्रथ चीनत ई-मोलमी की लिंच 15.09.2020 उस विधि को ई-11.00 यते प्रयोग्य में 01.00 यते अपगान्य तक जीवाकी पर समय (भा.मा.स.) प्रत्येक ५ मिनट का आरोपित विरासा 12 | उची-जीएफ+3 मॅक्सिम भवन में दूसरी मॅक्सि मर वाधिनियक स्थान, माप 382,48 समें फीट, सुपर एरिया, टुकान नं. एस-3, एसएफ, फ्रॉम रियर मॉल, साधिनियक| W. 21.60 7830 प्लॉट सं. ९-बी तथा ९-सं. सेंट्रल बिनिनेस, जिला शाहदार, दिल्ली-110092, बीमती बीना दीगरा पत्नी श्री सुधाप दीगरा के नाम पर। यह राज्यति स्थाने जीतिक क्रमते में है र्थ-मान्यमी की विशेष 15.09.2020 अस विशिष की ई-11.00 चने पूर्वास्य से 01.00 चने अपगस्य तक नीलाची कर रामध (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट कर असीमित विशता ककाया राति (त. में)- रू. 4,99,49,140.57/ - (रुपये चार करोड़ निन्छनये लाख उनचास हजार एक मी चालीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) तथा 18.10.2016 से प्रभावी व्याज, 18.10.2016 के बाद वसुरहे, पदि कोई हो, को घटाकर।

13 विमानि वेसपिट एवं अतल तथा तीन प्रतिनता भावन में निजी में. 1 एवं 10 प्रवास तल पर वाणिनियक स्थान है, प्रतितिल्ड फर्सट भाष 139,61 वर्ग मी, निजी में. 1 एवं 10 म. 3,90 लाख 10 1. मैसर्स लय नेव्य एएड ज्येला प्र.ति. E. 39.00 PERM 2. भी विकास पर्य प्रपीशन सं. 2728, प्रथम तल, प्लॉट सं. 25, वार्ड सं. XVI, गर्नी मं. 23-24, ब्लॉक पी, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुत, करील बाए, नई दिल्ली-110005, पैसर्स यह सम्पत्ति हमारे भौतिक करते हैं है जीमम बिल्हियेल प्राप्ति के जम पा। नोट : हम यह के बतान बाहते हैं कि कथित सम्बंध को 2012 में अन्यिकृत निर्माण के तहत एमसीडी द्वारा बुक की गयी थीं व्-जीलामी की विधि औ गुरम प्रकास 15,09,2020 4. front about ferenber ut fie. और इसलिए पैलुकर सम्पत्ति के अन्दर का निर्माण नहीं कर पाये थे। नीलामी क्रेता को विक्री मृत्य के अतिरिक्त एमसीबी के प्रभार का भी वहन करना होगा। उस तिथि को ई- 11.00 चने पुर्वास्त्र से 01.00 चने अपसल्य तक -फेलापी बार राजव ( आ.घ. घ. ) प्रशेष ५ मिनट बर असीमत विस्ता

वकाया राशि ( ह. में )- ह. 4,73,45,666/- ( रुपये चार करोड़ तिहतर लाख पैतालीस तजार छः मी छियासठ मात्र) तथा 06.01.2015 में प्रधायी व्याज, 06.01.2015 के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर। 1. मैंसार्व एक्टिपे जेवस एक्ट ज्येल्स 14 जिम्मीत एक यहे पर्वाट पर विभिन्न की-जी-ज में प्रथम तल पर पुरतान है। तुवाल पर कारपेट एरिया 75 वर्ग पीट (105.70 वर्ग पीट शुपर एरिया), सम्बन्धि निगम सं 6, 1,10 mm TC 11.00 THTM 2578-2579, टुकान ने. प्रमाय तल (राविणी और), गली ने. 5, खारात ने. 273 का चाग, नाईपाला एक्टेट, बीधनपुरा, करील बाग, नई दिल्ली-110005, श्रीमती राधा 2. भी धानप कुमार पान्हें यह प्राथमि प्रथमे औरिया प्रथमे में है स्रो अनित कृमार पाण्डे र्श-मीलभी भी विशेष

4. क्षेत्रके राज जीवते .4 उस विधि को ई-11.00 यत्रे पूर्वास्त्र से 01.00 यत्रे अपसस्त तक s. भोगारी शोनी दीव नीलामी का समय (अध्यास:) प्रत्येक ५ मिनट वर असीमित विरास , श्रीमधी चन्दर करण 15 सम्पत्ति एक बढ़े प्लॉट पर निर्मित बी-जी-3 में प्रथम तत पर दुकान है। दुकान का कारपेट एरिया 122 वर्ग फीट (98.06 वर्ग फीट सुपर एरिया), सम्पत्ति निराम सं. S. 13.73 FEB 2578-2579, टुकान में. प्रथम तल (क्टेमफेंस के पास), गली में. 5, खसरा नें. 273 का चार, नाईपाल एस्टेंट, बीडनपुर, करील चार, नई रिल्ली-110005, बीधारी यह सम्पति हमारे भौतिक कमते में है राजा जोती के नाम पर ई-मोलामी की लिब 15.09.2020 जम विधि को ई-11.00 सने पूर्वाल से 01.00 सने अपराल तक जीवनकी कर समय (भा.मा.स.) प्रत्येक ५ फिस्ट यह आरोपित विस्ता 16 शम्पनि एक फ्रीसीन्ड प्लॉट याप 130.61 वर्ग मीटर पर विधिन बी-जी-3 में प्रथम तल घर तुकान है। सम्पनि निजी सं, एकएफ-6, पर्नाट सं, 25, ब्लॉक-पी, वार्ट सं, W. 1.40 7000 年, 13.91 刊初 XVI, सम्पत्ति जिल्ला सं. 2728, नाली सं. 23-24, नाईपाला एस्टेंट, ऋगेल चान, नई दिल्ली-110005, भी अन्नव कुमार पान्हें के नाम पर यह सम्पन्ति हमारे भौतिक करते में है ई-नीलमी भी विश्व 15.09.2020 उस विधि को ई-11.00 को पूर्वाल से 01.00 को अवसल तक नीलामी का राजव (भागा, म.) प्रत्येक ५ विवट का अधीवित विकता 17 सम्बन्धि एक बहे पन्नीट पा निर्मित की-जी-3 में प्रथम जल पर दुकान है। दुकान का कारपेट एरिया 216 मर्ग परेट (232.18 मर्ग फीट सुपर एरिया), सम्बन्धि निराम सं. 2578-图: 26.61 HTN 2579, ट्रुकान में, प्रथम तल (सम्प्रति सं. 25772 के पास), गारी में, 5, खारता में, 273 का भाग, माईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, बीमती राधा यह सम्पति हमारे शैतिक करते में है जोशों के नाम पा ई-मीलामी की लिख 15.09,2020 उस रिधि को ई- 11.00 को पूर्वाल से 01.00 को अपसल सक

बकाया राहि (ह. में)- ह. 4,68,09,399/- (रुपये पार करोड़ अडसत लाख मैं हजार तीन सी निन्धानये मात्र) तथा 26.11.2014 से प्रचायी व्याज, 26.11.2014 के बाद वसुली, यदि कोई हो, को घटाकर। तै ती क्षार्थ कुन्नेट स्थार्थ आयुक्त प्रा.ति. 18 जितिरू जायासीय प्रथम तल ( शत के अधिकार रतित), सम्पन्ति सं. 3417-3419, प्लॉट सं. 2943/2315, क्लॉक-बार, गली नं. 1 एवं 2, रैगहपुरा, करोल बाग, नई र. 12.40 लाख W: 124.00 WHER 2. भी संजीय कुमार सोनी दिल्ली-110005, क्षेत्रफल 100 वर्ग गत, जी मंत्रीय कुमार मीनी, जीमती कान्त देवी पत्नी जी जगरीश घन्दर एवं जीमती कान्ता मीनी पत्नी जी मुरेश कुमार सीनी के यह सम्पत्ति तथारे भौतिक करते में है श्रीमधी शृषमा सीनी पानी संजीव कुमार सीनी, सभी ई-जेलामे को विधि 15,09,2020 निर्देशक वैवार्ग कुन्देर राक्त आधूका प्रा.ति. तस विधि की ई-11.00 सते पृत्रीस्व से 01.00 सते अपरास्त 4. सोमते काना देवी (जनानते) जीतरानी का समय | तक (भा,भा,ग्र.) प्रानीक ५ विनट का अमीतित ब्रीमर्स कान्छ सोनी पार्च औ सुरेश सोनी (अधानतें) **Hanner** 

बकाया राशि (रु. में)- रु. 1,39,40,500.00/- (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख चालीस हजार पींच सी मात्र) तथा 31.03.2019 से प्रमाणी ब्यान, 12.04.2019 के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर। साखा कार्यालय । (लॉट सं. s से 18) वैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसेट रिकयरे ब्रॉच, करोल चाग, नई दिल्ली, दूरभाष । 011-28753728; ई-मेल । bom1933@mahabank.co.in;, brmgr1933@mahabank.co.in;

अधिकृत प्राधिकारी, स्री जी.ची. सिंह; प्रधाप : 8872253156

विक्रय निर्धारित निविद्य प्रपत्र में निर्दिष्ट नियम एवं शतों के कटोरता से अनुपालन को शर्त पर है और ''नैसा है जहाँ है'' तथा ''जो कुछ भी है यही है'' जाधार पर किया जायेगा। . यह नीलामी प्रतिभृति हित अधिनियम की विशीय आरितयों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमांण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों तथा निम्नलिखित विशिष्ट नियमों एवं शर्तों हारा प्रशासित है।

. उल्लिखित सम्पत्ति हेतु नीलाम्हे विक्राय केवल वेबसाइट https://www.msteecommerce.com के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी/संविद्या'' के माध्यम से संविद्या के अलिम 5 मिनटों में प्राप्त होने की रिवर्ति में प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार स्रतित' 15.09.2020 तथा 24.09.2020 को 11 को पूर्वा. से 1 को अप. तक सम्पन्न होगी। संविद्याकार सम्पत्ति हेतु अनिलाइन संविद्य के दौरान अपने प्रस्ताव न. 10,000 (रूपये दस हजार मात्र) के गुणक में बढ़ायेंगे।

3. ई-नीलामी हेनु ई-मीलामी सेवा प्रदाल मैसर्ग एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्लेटफॉर्म (https://www.mstcecommerce.com) उपलब्ध कराया जायेगा जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बीस रोड, कोलकाता-700020 है (सम्पर्क दूरभाष एवं टोल प्री नम्बर 079-41072412/411/413 अथवा 1800-103-5342). इंब्युक संविदाकार से ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना अपेक्षित है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन

डिमॉस्ट्रेशन/प्रशिक्षण भी उपलब्ध करायेंगे। ६. ई-नीलामी के इच्छक भागोदार विक्रय सुमना की प्रतियाँ, ई-नीलामी के नियम एवं जातें, ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग के हेल्प मैनुअल ई-विक्रय-आईबीएपीआई पोर्टल (https://www.ibapi.in) से निःशुल्क डाउनलीड कर सकते हैं। . इच्छूक संविदाकार/क्रेला से अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का प्रयोग करते हुए पोर्टल (https://www.mstcauction.com) पर पंत्रीकृत होने का निवेदन किया जाता है। पुनः उन्हें अपेक्षित केयाईसी दस्तायेज अपलोड करने हैं। ई-नीलामी सेवा प्रदाता

द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेज सत्वापित होने पर (2-3 कार्यकारी दिवस का समय लग सकता है), इच्छाक संविदाकारों/केताओं को अपने ग्लोबल वालेट में ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करते हुए ईएमडी राति अन्तरित करनी होगी। उसके वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के पश्चात ही इब्बुक संविदाकार ई-नीलामी की तिथि पर घोली लगाने में सक्षम होंगे। . उपर्युक्त जमा चरोहर राति (ईएमडी) केवल एक माध्यम अर्थात एनईएफटी (https://www.mstcecommerce.com से चालान सुजित करने के उपराना) संविदाकार के ग्लोबल वालेट में जमा करनी होगी। एनईएफटी ट्रांसफर किसी भी अनुसूचित बैंक से किया

जा सकता है। किसी अन्य मध्यम जैसे चेक द्वारा ईएमडी का भूगतान स्वीकार नहीं किस जायेगा। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं किस जायेगा। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविद्याकार स्वीकार नहीं किस भाग लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा धरीहर राजि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

संविद्यकार एक व्य सची सम्मतियों, जैसी रिवर्त हो, के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। एक से अधिक सम्मति के लिए प्रस्ताव की रिवर्ति में संविद्यकार को प्रत्येक सम्मति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी। बोली के समय संविद्यकार के स्लोबल वालेट में पर्याप्त राशि

(ईएमडी राशि के बराबर या अधिक) होनी चाहिए। . बिक्रय सुचना, ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते, ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग का हेल्य मैनुअल उचित रूप से पढ़ना तथा उसका दृढ़ता से अनुपालन करना इच्छुक संविदाकार(री) का उत्तरदायित्व है।

9. ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान किसी कठिनाई या सहायता की आपश्यकता के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (https://www.msteecommerce.com/) के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। 10. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ई-मीलामी को अनिम स्वरूप दिये जाने के बाद केवल सफल संविदाकार को हमारे उपर्युक्त सन्दर्भित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से स्थित किया जायेगा। ( उसके द्वारा प्रदात मोबाइल नम्बर/ई-मेल पर/सेवा प्रदाता के

प्रतिचत आस्ति आरक्षित मृत्य से क्षम पर नहीं केची जायेगी।

12. सफल संविद्याकार को जमा की गयी इंएमडी राशि चटाकर संविद्य राशि का 25% (पन्चीस प्रतिशत) उसी दिन या अधिकतम अगले कामंदिवस तक तथा शेष राशि नीलवर्ग की विधि से 15 दिनों के भीतर अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में आरटीजीएस-एन्हीएफटी के माध्यम से खाता नाम "अधिकृत प्राधिकारी सरकाएली अधिनियम ईएमडी" खाता सं. 60121785733, शाखा नाम : साडच एकार्टेशन शाखा आईएफएससी कोड : MAHB0000392 में जमा करनी होगी। उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के चीतर राशियों के जमा करने में असफल होने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि बैंक द्वारा जब्त कर लो जायेगी और अधिकृत प्राधिकारी को सम्पत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने का अधिकार होगा तथा चुककर्ता संविदाकार का जब्त की गयी राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।

13. संविद्यकारों के लिए चेलावनी

(अ) सम्पत्ति को विक्री सम्पत्तियों पर भौतिक/सकितिक कब्जे के पश्चात "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जा रही है। (व) बैंक के पूर्ण संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविद्याकारों को ई-नीलामी प्रक्रिया में अपनी संविद्या जमा करने से पूर्व ऋण भारों, नीलामी पर रखी सम्पत्ति के स्वामित्व, सम्पत्ति का भौतिक क्षेत्रफल तथा दावों/अधिकारों/बकायों/सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। पूनः संविदाकारों को बोली लगाने से पूर्व किसी विधिक बकायों, कर के बकायों, दावों आदि के विषय में स्वयं अपनी निजी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिविधान को न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा। यह सम्पन्ति बैंक की जानकारी में समस्त वर्तमान तथा भागी ऋगभारों सहित विक्री की जा रही है। अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी

प्रकार से किसी दावे/अधिकार/चकाये के लिए उत्तरदावी नहीं शीये। स) बैंक विक्री हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष में किसी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि के लिए अथवा कथित सम्पत्ति की विक्री के परिप्रेक्ष तथा/अथवा सम्बन्ध में किसी बकावे जैसे पानी/सेवा प्रभार के बकावे, अन्तरण शुल्क, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी आधास समिति के बकाये या कोई अन्य बकाये, कर, लेवी, शुल्क, अन्तरण शुल्क, यदि कोई हो, का कोई उत्तरदायित्य नहीं लेता है। सफल संविदाकार को सम्पत्ति के क्रय से सम्बन्धित आयकर के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा तथा प्रयोज्य दरों के अनुसार

द) संविद्यकारों को सम्बद्ध राजस्य रिकार्ट-अन्य विधिक प्राधिकरणों नैसे विक्रय कर आबकारी-आयकर आदि से सत्यापित करने की सलाह/चेतावनी दी जाती है तथा अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व स्वयं को सम्पत्ति की प्रकृति, विवरण दशा, ऋण भार, लिएन, प्रभार, विधिक बकावों आदि के विषय में सन्तुष्ट कर लेना चाहिए।

😩 अधिदाकारों को संपिदा जमा करने तथा ऑनलाइन बोली/नीलामी में भाग लेने से पूर्व विक्री के समस्त निषम एवं शतीं तथा साथ ही संगत सार्वजनिक विक्री सखन के विस्तृत विवरण को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है। (२) बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेत्र में प्रदर्शित सरकार/स्थानीय निकाय के प्रति बकाया विधिक देवताएँ/दायित्य आदि क्रेता(ओ) द्वारा यहन किया जायेगा।

(ल) विक्री की सुचना स्थानीय भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। यदि इसकी व्याख्या में कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दी जायेगी।

(व) संविदाकारों विक्री के विस्तृत नियम एवं ज़तों को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है, कृपया बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक "https://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp', तथा साथ ही ई-विक्रय पोर्टल

https://ibapiin अध http://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp देखें। Mile : 18.08.2020 रखान : नई दिल्ली अधिकत प्राधिकारी

www.readwhere.com